

## नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एनसीएल/ज.स./प्रे.वि./17-18/616

दिनांक - 13.02.18

### प्रेस विज्ञप्ति

#### एनसीएल के नेहरू अस्पताल में टी.बी. जांच मशीन का शुभारंभ

#### इस मशीन की मदद से एनसीएल और स्थानीय मरीजों की होगी निःशुल्क जांच

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी) में सोमवार को क्षय रोग (टी.बी.) की जांच हेतु अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ हुआ। एनसीएल के मुख्य चिकित्सा सेवाएं (सीएमएस) डॉ. आई.बी. मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि मशीन का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश राज्य शासन के सहयोग से अस्पताल के विकृति विज्ञान विभाग में पैथोलॉजी लैब के समीप लगाई गई इस मशीन की मदद से अस्पताल में टी.बी. की बीमारी के इलाज हेतु आने वाले एनसीएल और नॉन-एनसीएल मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा।

बलगम या शरीर के अंदर का कोई टिशू सैंपल लेकर इस मशीन से जांच की जाएगी और जांच के नतीजे महज 2 घंटे की अवधि में उपलब्ध होंगे। यह मशीन मुख्य रूप से यह बताएगी कि मरीज को टी.बी. की बीमारी है या नहीं और यदि है तो उस पर टी.बी. की प्राथमिक दवाओं का असर होगा या नहीं। लिहाजा इस मशीन से जांच के बाद टी.बी. मरीजों के इलाज में काफी सुगमता होगी।

मशीन के उद्घाटन के अवसर पर पैथोलॉजी विभाग के प्रभारी डॉ. एस.के. गुप्ता, डॉ. बोरा, शिशु रोग विभाग के प्रभारी डॉ. विवेक खरे, डॉ. प्रीति लकड़ा, डॉ. पी.के. मुण्डा, स्टाफ अधिकारी (सिविल) श्री जी. प्रकाश, स्टाफ अधिकारी (कार्मिक) श्री डी. पी. सिंह, स्टाफ अधिकारी (विद्युत एवं यांत्रिकी) श्री ए.एन. पांडेय, सहायक प्रबंधक (कार्मिक) श्री आर.के. राठौर, बी.के.के.एस.एस. के सचिव श्री राज कुमार, सीएमएस के अध्यक्ष श्री ईश्वर प्रसाद सहित एनएससी के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि एनसीएल का नेहरू शताब्दी चिकित्सालय सिंगरौली क्षेत्र में हेल्थ की लाइफलाइन है। हाल ही में इस अस्पताल के डॉक्टरों ने बाहरी विशेषज्ञों के साथ मिलकर सीएसआर के तहत एक स्थानीय मरीज के घुटने का निःशुल्क सफल प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) किया था।

यदि किसी व्यक्ति को दो हफ्ते से लगातार खांसी और बुखार है, तो इसे टी.बी. का लक्षण मानते हुए इसकी फौरन जांच करानी चाहिए। ऐसे लक्षण से ग्रस्त लोग नेहरू अस्पताल में आई इस नई मशीन से निःशुल्क जांच करा सकते हैं।

(जनसम्पर्क अधिकारी)